



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1980/भाद्र 5, 1902

No. 251]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1980/BHADRA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1980

सां० कां० नि० 490(अ).—महानिदेशक, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोस्ट बॉक्स आदेश, 1956 का धीरे-धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्—

1. (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पोस्ट बॉक्स (दूसरा संशोधन) आदेश, 1980 है।

(ii) यह प्रथम सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त होगा।

2. पोस्ट बॉक्स आदेश, 1956 के (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) पैरा 8 के उप पैरा (क) में विद्यमान सब (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“(i) 60 रु० प्रति वर्ष, यदि पूर्ण शासकीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए किराए पर दिया गया है;

(ii) प्रत्येक तीन क्लेण्डर मास या उसके भाग के लिए 20 रु० यदि पूर्ण शासकीय वर्ष से कम किसी अवधि के लिए किराए पर दिया गया है।”

3. पैरा 24 के उप पैरा (क) में विद्यमान सब (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“(i) 100 रु० प्रति वर्ष, यदि पूर्ण शासकीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल,

से 31 मार्च तक के लिए किराए पर दिया गया है; या

(ii) प्रत्येक तीन क्लेण्डर मास या उसके भाग के लिए 30 रु० यदि पूर्ण शासकीय वर्ष से कम अवधि के लिए किराए पर दिया गया है।”

[फा० सं० 1-12/80 धार०]

जो०ई० बनर्जी, निदेशक डाक (तकनीकी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T. Board)

ORDER

New Delhi, the 26th August, 1980

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Indian Post Office Act, 1898, (6 of 1898), the Director General hereby makes the following orders further to amend the Post Boxes orders, 1956, namely :—

1. (i) This order may be called the Post Boxes (2nd Amendment) Order, 1980.

(ii) It shall come into force on the 1st, Sept., 1980.

2. In the Post Boxes Order, 1956 (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 8 in sub-paragraph

(a), for the existing items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely :—

(i) Rs. 60 per year, if rented for a full official year, that is to say, from 1st April to 31st March;

(ii) Rs. 20 for every three calendar months or part thereof, if rented for a period of less than a full official year".

3. In paragraph 24B, in sub-paragraph (a), for the existing items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely :—

(i) Rs. 100 per year, if rented for a full official year, that is to say, from the 1st April to 31st March, or

(ii) Rs. 30 for every three calendar months or part thereof, if rented for a period of less than a full official year".

[F. No. 1-12/80/R]

G. E. BANERJI, Director Postal Technical.

अधिसूचना

नई दिल्ली 26 अगस्त, 1980

सां. कां. नि. 491(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7 और धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 1980 है।

(ii) ये प्रथम सितम्बर 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 1 में,

(क) "पत्र" शीर्ष के नीचे "दस ग्राम से अधिक भार के लिए" से संबंधित प्रविष्टि के सामने "30" अंकों के स्थान पर "35" अंक रखे जाएंगे।

(ख) (i) "पार्सल" शीर्ष के नीचे "पाँच सौ ग्राम से अधिक भार के लिए" से संबंधित प्रविष्टि के सामने "1.50" अंकों के स्थान पर "2.00" अंक रखे जाएंगे;

(ii) "पाँच सौ ग्राम से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पाँच सौ ग्राम या उसके भाग के लिए" शब्दों के सामने "1.50" अंकों के स्थान पर "2.00" अंक रखे जाएंगे;

3. उक्त नियमों के नियम 194 में;

(क) "समुद्रमृत लिफाफा" शीर्ष के नीचे "प्रत्येक (अन्तर्वेशीय) लिफाफे के लिए" प्रविष्टि के सामने "30 पैसे" अंकों और शब्द के स्थान पर "35 पैसे" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रजिस्ट्रीकरण लिफाफे" शीर्ष के नीचे "प्रत्येक लिफाफे के लिए" से संबंधित प्रविष्टि के सामने "दो रुपये पचपन पैसे घन दस पैसे लेखन सामग्री प्रभार" शब्दों के स्थान पर "दो रुपये साठ पैसे घन दस पैसे लेखन सामग्री प्रभार" शब्द रखे जाएंगे।

[फां. सं. 1/12/80-भार]

एम०एस० गैव, सहाय्य (डाक) और उपर सचिव पदेन

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1980

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by sections 7 and 8 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Post Office (3rd Amendment) Rules, 1980.

(ii) They shall come into force on the 1st day of September, 1980.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 1,

(a) under the heading "Letters", against the entry relating to "For a weight not exceeding ten grams", for the figures "30", the figures "35", shall be substituted;

(b) (i) under the heading "Parcels", against the entry relating to "For a weight not exceeding five hundred", for the figures "1.50", the figures "2.00" shall be substituted :—

(ii) against the words "For every additional five hundred grams or fraction thereof in excess of five hundred grams", for the figures "1.50" the figures "2.00" shall be substituted;

3. In rule 194 of the said Rules,

(a) under the heading "Embossed Envelopes", against the entry relating to "For each (Inland) Envelope", for the figures and word "30 paise", the figures and word "35 paise" shall be substituted;

(b) under the heading "Registration Envelopes", against the entry relating to "For each envelope", for the words "Rupees two and fifty five paise plus ten paise stationery charges", the words "Rupees two and sixty paise plus ten paise stationery charges" shall be substituted.

[F. No. 1/12/80/R]

M. L. GAIND, Member (Posts) of the P&T Board and Ex-officio Addl Secy.

सां. कां. नि. 492(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (बीया संशोधन) नियम, 1980 है,

(2) ये 1 सितम्बर, 1980 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 434 में—

(i) अनुभाग 1 के उप अनुभाग (1) की मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- (क) प्रत्येक टेलीफोन कनेक्शन (किसी विभागीय एक्सचेंज से ब्राकस्मिक कनेक्शन को छोड़कर) प्राथमिक या बाह्य विस्तारण, निजी एक्सचेंज कनेक्शन, निजी शाखा एक्सचेंज कनेक्शन, निजी शाखा एक्सचेंज की जंक्शन लाइन और निजी पार के प्रत्येक मिर्रे या किसी तान-एक्सचेंज लाइन के लिए 150 रु०
- (ख) विभागीय एक्सचेंज से किसी ब्राकस्मिक कनेक्शन के लिए 75 रु०

(ii) अनुभाग 2 के उप अनुभाग (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) निजी और निजी शाखा एक्सचेंजों के टेलीफोन कनेक्शन, विस्तारण, प्लग प्वाइंट और कनेक्शन:—

- (क) एक ही कमरे में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन के लिए 75 रु०
- (ख) एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन के सभी अन्य मामलों के लिए 150 रु०”

(iii) अनुभाग 3 के उप अनुभाग (1) में, “स्थानीय क्षेत्र के भीतर” शीर्ष के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) माप दर पद्धति

तिमाही किराए और काल फीस की दर

प्रति काल यूनिट फीस जो अनुज्ञात निःशुल्क से अधिक हो

टेलीफोन एक्सचेंज पद्धति	किराया	तिमाही	251 से	1751 से	5000
		के दौरान	1750	5000	से
		अनुज्ञात तक	तक	तक	अधिक
		निःशुल्क			
		काल			
		यूनिटों की संख्या			

1 2 3 4 5 6

1. 10,000 लाइनों से 125 रु० 250 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे
कम की एक्सचेंज पद्धति

	1	2	3	4	5	6
2. 10,000 लाइन और उनसे अधिक किन्तु 30,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज पद्धति	150 रु०	250	30 पैसे	40 पैसे	50 पैसे	
3. 30,000 लाइन और उनसे अधिक, किन्तु 1,00,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज पद्धति	175 रु०	250	30 पैसे	40 पैसे	50 पैसे	
4. 1,00,000 लाइन और उनसे अधिक की एक्स- चेंज पद्धति	200 रु०	250	30 पैसे	40 पैसे	50 पैसे	

माप दर पद्धति किसी एक्सचेंज में ऐसी तारीख से आरम्भ की जा सकती है जो तार प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। किसी काल की अधि जिय के लिए “काल यूनिट” प्रभारित किया जाता है, टेलीफोन के बीच की दूरी पर, जिससे टेलीफोन करने और टेलीफोन सुनने वाले जुड़े हैं, निर्भर करेगी, जैसा कि तार प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(iv) अनुभाग 7 के उप अनुभाग (1) (क) में, “माप दर पद्धति में सभी काल अनुभाग III के मद 1 की उपमद (क) में ऐसी कालों के लिए विहित दर से प्रभारित की जाएंगी और कोई काल निःशुल्क नहीं होगी” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“माप दर पद्धति में, काल अनुभाग 3 की मद 1 की उपमद (क) में ऐसी कालों के लिए विहित दर से प्रभारित की जाएंगी। किन्तु कोई भी काल निःशुल्क नहीं होगी और पहली 1250 काल भी अनुभाग 3 के उप अनुभाग (1) की मद (क) में दाने वाली माप दर पद्धति को लागू सारणी के स्तम्भ 4 में दाशत की गई दर पर प्रभारित की जाएंगी।

(v) अनुभाग 8 में, “एक्सचेंज उपस्कर के लिए किराया और संस्थापन प्रभार” शीर्ष के नीचे, उप अनुभाग (1) और उसके नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

एक्सचेंज का प्रकार	संस्थापन प्रभार	वार्षिक किराया	1	2	3
(क) निजी मैन्युअल एक्सचेंज और निजी मैन्युअल शाखा एक्सचेंज	रु०	रु०	500 लाइन का एक्सचेंज	वार्षिक किराए का 20%	2,30,000
1. घन 3@	150	400	600 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	2,70,000
2. घन 6@	300	800	(ii) होटल प्रकार का		रु०
3. घन 9@	500	1200	100 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	85,000
5. घन 20†	700	3000	200 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	1,35,000
10. घन 50†	1500	7500	300 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	1,85,000
20. घन 100†	2500	15000	400 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	2,35,000
@दिना बोरी			500 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	2,85,000
†फर्श मसूना			600 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	3,35,000

(ख) निजी ग्राटो एक्सचेंज और निजी ग्राटो शाखा एक्सचेंज

5 लाइन का निजी ग्राटो शाखा एक्सचेंज (पी ए बी एक्स)	500	1200(XX)
9 लाइन का निजी ग्राटो शाखा एक्सचेंज (पी ए बी एक्स)	1000	2400(XX)
25 लाइन	2500	7500
50 लाइन	4000	15000
100 लाइन	7000	30000

(XX) किराया सभी आन्तरिक कनेक्शनों के किराए सहित पूरी इकाई के लिए है।

(ग) विस्तार योग्य प्रकार के निजी शाखा एक्सचेंज (पी०बी०एक्स०) और निजी ग्राटो शाखा एक्सचेंज (पी०ए०बी०एक्स०)

एक्सचेंज का प्रकार	संस्थापन प्रभार	वार्षिक किराया
1	2	3
(i) साधारण प्रकार		रु०
100 लाइन का एक्सचेंज	वार्षिक किराए का 20%	70,000
200 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	1,10,000
300 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	1,50,000
400 लाइन का एक्सचेंज	-यथोक्त-	1,90,000

ये एक्सचेंज कुछ वर्गों के लिए गारण्टीकृत होंगे जो तार प्राधिकारी विनिश्चित करे।”

3. उक्त नियमों के नियम 451 के उपनियम (क) में सारणी में, “20 कि०मी० तक—0.50” प्रतिफिट के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिफिट रखी जाएगी, अर्थात्:—

“20 कि०मी० तक—1.00”

4. उक्त नियमों के नियम 451 के विद्यमान उप-नियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) दिन के कुछ घण्टों के दौरान जिसमें रविवार और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिन भी हैं तथा कालों के कुछ वर्गों पर घटे हुए प्रभार निम्न-लिखित होंगे:—

कालों का वर्ग	साधारण और एम०बी०एक्स० प्रतिशत	अर्जेंट प्रतिशत
(क) रविवार तथा तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों में रात्रि 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक	50	100
(ख) अन्य दिनों में रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक	50	100
प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक	100	100
सायं 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक	50	100

घटे प्रभारों की रियायत किसी दो एक्सचेंजों के बीच या दो लम्बी दूरी के प्रभार केन्द्रों के बीच, जो 50 कि०मी० की त्रिज्या दूरी के बांध स्थित हैं, दूर कालों को लागू नहीं होगी। 100 प्रतिशत टैरिफ, काल के

वर्ग के अनुसार यूनिट अर्थात् के टुक काग के लिए सामान्य पूर्ण वर
टैरिफ है।"

[फा० सं० 3-40/80-प्रार]

प्रा०के० वर्गमि, सदस्य, डाक-तार बोर्ड प्रोग
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार।

G.S.R. 492 (E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) the Central Government hereby makes the following rules) further to amend the Indian Telegraph Rules 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraphs (4th Amendment), Rules, 1980.

(2) They shall come into force from the first day of September, 1980.

2. In rule 434 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred as the said Rules),

(i) in section 1, in sub-section (1), for items (a) and (b), the following shall be substituted, namely:—

"(a) for each Telephone connection (excluding casual connection from a Departmental Exchange), internal, or external extension, private exchange connection private branch exchange connection, junction line to private branch exchange and for each end of a private wire or of a Non-Exchange Line.....Rs. 150/-
(b) for a casual connection from a Departmental Exchange.....Rs. 75/-"

(ii) in section II, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Telephone connection, extension, plug point and connection to private and private branch exchanges:—

(a) for shift from one position to another in the same room. Rs. 75/-

(b) for all other cases of shift from one position to another Rs. 150/-"

---(iii) in section III, in sub-section (1), for the entries under the heading "Within the local area", the following shall be substituted, namely:—

"(a) Measured Rate System

Rates of quarterly rental and call fees

Telephone Ex- change system	Rental	Fees per call unit in excess of those allowed free of charge		
		Number of call units allowed free of charge during the quarter	From 251 to 1750	From 1751 to 5000

1	2	3	4	5	6
1. Exchange system of less than 10,000 lines.	Rs. 125	250	30 Paise	40 Paise	50 Paise
2. Exchange system of 10,000 lines and above but below 30,000 lines.	Rs. 150	250	30 "	40 "	50 "
3. Exchange system of 30,000 lines and above but below 1,00,000 lines.	Rs. 175	250	30 "	40 "	50 "
4. Exchange system of 1,00,000 lines and above	Rs. 200	250	30 "	40 "	50 "

The measured rate system may be introduced at any exchange from such date as the Telegraph Authority may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. The duration of a call for which one "Call Unit" is charged, will depend upon the distance between the Telephone exchanges to which the calling and the called Telephones are connected, as specified by the Telegraph Authority from time to time".

(iv) in section VII, in sub-section (1) (a), for the words "in Measured Rate System all calls shall be charged at the rate prescribed for such calls in sub-item (a) of item 1 of section III and no calls shall be allowed free of charge" the following shall be substituted, namely:—
"In measured rate system, calls shall be charged at the rate prescribed for such calls in sub-item (a) of item 1

of section III. However, no calls shall be allowed free of charge and the first 250 calls will also be charged at the rate shown in column 4 of the table applicable to measured rate systems appearing in item (a) of sub-section (1) of section III."

(v) in section VIII, for sub-section (1), under the heading "Rent and installation charges for exchange equipment", and the Note thereunder the following shall be substituted, namely:—

"Size of Exchange"	Installation Charges	Annual Rental
	Rs.	Rs.
a. Private Manual exchanges and private Manual Branch Exchanges.		
1 Plus 3@	150	400
2 Plus 6@	300	800
3 Plus 9@	500	1200
5 Plus 20£	700	3,000
10 Plus 50£	1,500	7,500
20 Plus 100£	2,500	12,000
@Cordless.		
£Floor pattern.		
b. Private Automatic Exchanges and Private Automatic Branch Exchanges.		
5 lines PABX	500	1,200 (**)
9 lines PABX	1,000	2,400(**)
25 lines	2,500	7,500
50 lines	4,000	12,000
100 lines	7,000	30,000

(**) rental is for the whole unit inclusive of rent for all their internal connections.

(c) Extendable Type
PBXs & PABXs

Size of Exchange	Installation charges	Annual Rental
	Rs.	Rs.
(i) Ordinary Type		
100 lines exchange	20 % of the annual rental	70,000
200 " "	-do-	1,10,000
300 " "	-do-	1,50,000
400 " "	-do-	1,90,000
500 " "	-do-	2,30,000
600 " "	-do-	2,70,000
(ii) Hotel Type		
100 lines exchange	-do-	85,000
200 " "	-do-	1,35,000
300 " "	-do-	1,85,000
400 " "	-do-	2,35,000
500 " "	-do-	2,85,000
600 " "	-do-	3,35,000

These exchanges will be guaranteed for certain number of years as decided by Telegraph Authority".

3. In rule 451 of the said Rules, in sub-rule (a), in the Table, for the entry "Upto 20 Kilometres.....0.50".

the following entry shall be substituted, namely:—

"Upto 20 Kilometres.....1.00".

4. In rule 451 of the said Rules, for the existing sub-rule (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) Reduced charges during certain hours of the day including Sundays and three National Holidays and on certain classes of Calls shall be as follows:—

	Class of Calls	
	Ordinary and SVH	Urgent
(a) Sundays and three National Holidays 00.00 hrs. to 24.00 hrs.	50 %	100 %

(b) On other days 00.00 hrs. to 08.00 hrs.	50%	100%
08.00 hrs. to 19.00 hrs.	100%	100%
19.00 hrs. to 24.00 hrs.	50%	100%

within a radial distances of 50 Kms. The 100% tariff is the normal full rate tariff for a trunk call of unit duration according to class of the call".

[File No. 3-40/80/R]

P. K. VERGHESE, Member (T.O.) of

P & T Board & Ex-officio

Addl. Secy.

The concession regarding reduced charges shall, however, not apply to trunk calls between any two exchanges or between any two long distance charging centres, which are situated

